



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

19 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 772 राँची, शुक्रवार

10 अगस्त, 2018 (ई०)

---

#### परिवहन विभाग

-----  
अधिसूचना

10 अगस्त, 2018

**संख्या-परि०वि०-(शमन)-18/2018-686--** पूर्व में राज्य के छः जिलों यथा- राँची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग एवं देवघर के ट्रैफिक थानों को परिवहन विभाग के अधिसूचना संख्या- 953, दिनांक 14 सितम्बर, 2009 द्वारा मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदत्त की गई है ।

2. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, राँची द्वारा राज्य में तीन नये ट्रैफिक थाना यथा - गिरिडीह, रामगढ़ एवं सरायकेला-खरसांवा का सृजन किया गया है एवं इन जिलों के पुलिस पदाधिकारियों को भी मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान करने एवं राज्य के सभी 24 जिलों में नागरिक पुलिस/यातायात पुलिस के राजपत्रित पदाधिकारी, यातायात पुलिस सहायक अवर निरीक्षक एवं उसके उपर की पंक्ति के पदाधिकारियों को

मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा-158(6) एवं धारा-196 के तहत शमन की शक्ति की अपेक्षा की गई है।

3. उपरोक्त के क्रम में नवसृजित यातायात थानों-गिरिडीह, रामगढ़ एवं सरायकेला-खरसावा में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षकों से अन्यून पुलिस पदाधिकारियों को **मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा-200** के तहत शमन की शक्ति एवं राज्य के सभी 24 जिलों में नागरिक पुलिस/यातायात पुलिस के राजपत्रित पदाधिकारी, यातायात पुलिस सहायक अवर निरीक्षक एवं उसके उपर की पंक्ति के पदाधिकारियों को **मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा-158(6) एवं धारा-196** के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

4. सभी संबंधित पुलिस पदाधिकारी जुर्माने की राशि का 90 प्रतिशत विभागीय शीर्ष-0041 (बैंक खाता संख्या-10923552813, भारतीय स्टेट बैंक, डोरण्डा, राँची) में तथा शेष 10 प्रतिशत **सड़क सुरक्षा कोष** (खाता संख्या-36744433613, स्टेट बैंक डोरण्डा, राँची) में प्रत्येक कार्य दिवस को जमा करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रत्येक माह की पहली तारीख को विगत माह में वसूल किये गये जुर्माने की राशि की विस्तृत विवरणी विहित प्रपत्र में परिवहन विभाग, झारखंड, राँची को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5. अधिसूचना निर्गत की तिथि से उपर्युक्त प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा परिवहन विभाग से विहित प्रपत्रों यथा-जब्ती रसीद, मनी रसीद आदि प्राप्त कर उसी के माध्यम से नियमानुसार यथावांछित राशि की वसूली की जायेगी एवं इस प्रकार वसूल की गयी राशि को ससमय विभागीय शीर्ष कंडिका-4 में वर्णित बैंक खातों में चालान के माध्यम से जमा किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**भूषण पासवान,**  
सरकार के उप सचिव,  
परिवहन विभाग।

-----